

FDI norms: 26% for group firms

■ Can also appoint more than 50% of members of board of directors in the other enterprise.

By **Pradeep Bhatnagar**
New Delhi, June 3

THE department of industrial policy and promotion (DIPP) on Monday finalised the definition of 'group company' for the purpose of regulation of foreign direct investment (FDI). As per the new definition, group company means two or more enterprises which, directly or indirectly, are in a position to exercise 26% or more of voting rights in other enterprise or appoint more than 50% of members of board of directors in the other enterprise.

This definition, which is in sync with what is stated in the foreign trade policy (FTP), would be incorporated in the consolidated FDI circular and will be effective from April 2013.

The definition of group company would impact retail firms like Bharti-Walmart, which is a 50:50 joint venture between the US-based retail-



er and India's Bharti Group. Under the policy, the JV firm is in the cash and carry business and supplies products to the front-end stores of Bharti Retail, 100% held by the Bharti Group. The policy restricts such cash and carry firm from selling more than 25% of their produce to the group firms.

However, in the absence of a clear definition of group company, it was difficult to monitor such practices.

Though the government

CBI likely to question ex-railway minister Pawan Bansal

SC to hear another PIL seeking new CAG's removal

New Delhi, June 3: A fresh PIL was filed on Monday in the Supreme Court seeking removal of Shashi Kant Sharma as the Comptroller and Auditor General of

VI **VISESH INFOTECNICS LTD.**
(An ISO 9001:2008 Company)
Regd. Office: 508, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi- 110001
CORRIGENDUM

This is to inform that a typographical error had been noticed in the Consolidated Audited Financial Results of the Company for the year ended 31/03/13, which was published on 01/06/13. Please be informed that the minority interest has been inadvertently shown as (Rs. 466) lacs only instead of (Rs.466/-) The Minority Interest in the Consolidated Audited Financial Results be read as (Rs. 466/-) only

For Vivesh Infotecnics Limited
New Delhi
Date: 03.06.2013
Company Secretary

PUBLIC NOTICE
BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION
IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956, SECTION 17
AND
IN THE MATTER OF BLB LIMITED HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT
3RD FLOOR, ECE HOUSE, ANNEXE-II, 28A, KASTURBA GANDHI MARG, NEW DELHI-110001
..... PETITIONER

Notice in pursuance to the provisions of Section 17 of the Companies Act, 1956 and Regulation made thereunder in regard to the proposal for alteration in the Memorandum of Association of the Company is hereby given that the petition under Section 17 of the Companies Act, 1956, will be filed before the Regional Director, Northern Region, Noida at Uttar Pradesh by the petitioner company seeking confirmation of the alteration of Clause II of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed by way of Postal Ballot on 01.06.2013 to enable the petitioner company to shift the Registered Office from the "National Capital Territory of Delhi" to "State of Haryana".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed alteration of the Memorandum of Association may deliver or cause to be delivered or send by Registered Post his objection supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition, if any, to the Regional Director (Northern Region), PDIL Bhawan, A-14, Sector-1, Gautam Budh Nagar, Noida, Uttar Pradesh-201301 and also a copy to the petitioner company at its Registered Office at 3rd Floor, ECE House, Annexe-II, 28A, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 within 21 days from the date of publication of this Notice.

For and on Behalf of petitioner
BLB LIMITED
(Priyanka Sharma)
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 03.06.2013

LT **LARSEN & TOUBRO LIMITED**
Regd. Office: L&T House, Ballard Estate, Mumbai 400 001

NOTICE TO MEMBERS

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 192A of the Companies Act, 1956, read with the Companies (Passing of the Resolution by Postal Ballot) Rules, 2011, the Company has on June 3, 2013:

- completed the despatch of Notice along with the Postal Ballot Form and a self-addressed postage prepaid business reply envelope to the Members; and
- sent e-mail through National Securities Depository Limited (NSDL) along with the details of Login ID and password to the Members whose e-mail id is registered with the Company.

for seeking Members' consent for issue of Bonus shares in the ratio 1:2 [i.e. 1 (One) Bonus equity Share of Rs.2/- for every 2 (Two) fully paid-up Equity Shares of Rs.2/- each held] by capitalisation of its Reserves.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. S.N. Ananthasubramanian, Practising Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot in a fair and transparent manner. As required under Clause 35B of the Listing Agreement, the Company has engaged the services of NSDL to provide electronic voting facility to the Members of the Company.

The Members have an option to vote either by electronically or by way of physical Postal Ballot Form. The voting, both by physical or electronic mode, will commence on 4th June 2013 (from 9.00 a.m.) and end on 3rd July, 2013 (at 5.00 p.m.). Please note that any postal ballot(s) / electronic votes received / cast from / by the Member(s) after 3rd July 2013 (5.00 p.m.) will be strictly treated as if no reply from such Member(s) has been received.

The Notice along with Postal Ballot Forms have been sent to all the Members whose names appeared in the Register of Members / Record of Depositories on 24th May 2013. A person who has become a Member after 24th May 2013 may obtain Postal Ballot Form as mentioned below and vote on the resolution by Postal Ballot.

Members can opt for only one mode of voting i.e. either by physical ballot or by electronic mode. In case, any member casts vote through physical ballot as well as electronic mode, then voting done through physical ballot shall prevail and voting done by electronic mode will be treated as invalid.

पंजाब, कर्नाटक की जीत से शुरुआत

में
तने
को
।
गत
एक
सात

नई दिल्ली, 3 जून (भाषा)। पंजाब, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) और कर्नाटक ने तीसरी हाकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सोमवार को यहाँ जीत के साथ शुरुआत की। पंजाब ने पूल 'ए' में केरल को 13-0 से हराया। उसकी तरफ से परविंदर सिंह ने पांच,

गगनप्रीत सिंह ने दो और हरसाहिब सिंह, गुरिंदर सिंह, विक्रमजीत सिंह, अजित पंडित, गुजरंत सिंह और लवप्रीत सिंह ने एक-एक गोल किया। पूल ए के एक अन्य मैच में झारखंड ने मुंबई क्रिकेट संघ लिमिटेड को 3-0 से हराया। झारखंड की तरफ से सुमंत, राहुल और संजय ने गोल किए। साई ने पूल

'ई' के लीग मैच में मणिपुर को 11-1 से पराजित किया। संदीप कुमार सिंह ने साई की तरफ से छह गोल किए। पूल ई के एक अन्य मैच में कर्नाटक ने राजस्थान को 13-0 से हराया। विजेता टीम की तरफ से जितेंद्र और राकेश ने तीन-तीन और श्रेयास और सहेश गौड़ा ने दो-दो गोल किए।

जीते

मास्टर नाम पाने की बेना शतरंज टूर्नामेंट में का जबकि पूर्व जूनियर जीत दर्ज की। में बेहतर प्रदर्शन किया।

या।
वही
फ्रेंडर
की
तुर्की
निल
भारत
हस्त
ट में
हुए
क है

हाफी
पछले
त के
वाले
करने
। है।
में ही
बनाने
र में
गामना
की
डि
भारत
और
गटेक
गेरदार
मेगान
राकर
बल्लस
सीड
चले

PXIL
Transforming Power Markets

Power Exchange India Limited
Trading Month May - 2013

| Markets | Day Ahead Spot | | Intraday | |
|---------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Traded | Prices (Rs / KWh) | Prices (Rs / KWh) | Volume (MU) |
| Max | 5.00 | 5.35 | 2.40 | 0.42 |
| Min | 1.26 | 1.13 | 2.20 | 0.42 |
| Avg | 2.52 | 2.36 | 2.25 | 0.42 |
| Total | | 73.20 | | 0.42 |

SMS PHARMACEUTICALS LIMITED
Regd Off.: Plot No. 19-III, Opp. Bharatiya Vidya Bhavan Public School, Road No. 71, Jubilee Hills, Hyderabad-500 096;

Tel: +91 40 66288888; Fax: +91 40 23551401; Email: info@smspharma.com;
Website: www.smspharma.com; Contact Person: P. Prabhakara Rao

INFORMATION ON BUY BACK OF EQUITY SHARES FROM OPEN MARKET

This information is being published pursuant to Regulation 15(i) of the Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 in connection with Buyback of Equity Shares from Open Market through BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited ("Stock Exchanges") by SMS Pharmaceuticals Limited ("SMS"). Shareholders of SMS may note that as of June 3, 2013, SMS has bought 54,977 Equity Shares (subject to close outs) through the Stock Exchanges for a total consideration of ₹ 133.65 lakhs (excluding brokerage and other charges applicable to the purchase), which represents 2.87% of the total Buyback size of ₹ 4,650 lakhs.

For and on behalf of Board of Directors of SMS Pharmaceuticals Limited

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ramesh Babu Potturi Chairman & Managing Director Hyderabad | TVVSN Murthy Vice Chairman & Joint Managing Director | P. Prabhakara Rao Company Secretary |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

Date: June 3, 2013

बीएलबी लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: 3ग तल, ईसीई हाउस, एनईसी-11, 28 ए, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

पोस्टल बैलेंट का प्रस्ताव

कंपनी के शेयरधारकों तथा सभी संबंधित सत्ताओं/ प्राधिकरणों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी ने "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को स्थानांतरित करने के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कंपनीज (पोस्टल बैलेंट द्वारा प्रस्ताव पारित करना) नियमावली, 2011 के साथ पंढित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 192ए के अनुपालन में पोस्टल बैलेंट प्रक्रिया को संचालित किया है। पोस्टल बैलेंट प्रक्रिया का संचालन करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल ने डा. एस चंद्रशेखरन, सीनियर पार्टनर अथवा उनकी अनुपस्थिति में श्री रूपेश अग्रवाल, मै. चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज के बॉटनर की पदविधक नियुक्त किया था। डा. एस. चंद्रशेखरन ने अपना रिपोर्ट जमा कर दिया है तथा पोस्टल बैलेंट के परिणामों को 1 जून, 2013 को 11.00 बजे पूर्ण, में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में घोषित किया गया जो इस प्रकार है:

| क्रम सं. | प्रस्ताव का विवरण | कुल वैध भागों की सं. | शेयरों की सं. के लिए | शेयरों की सं. के विरुद्ध |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण के लिए मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज II में परिवर्तन के लिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 17 के अंतर्गत विशेष प्रस्ताव। | 46308026 | 46308026 | 0 |

तदनुसार, उपरोक्त विशेष प्रस्ताव को आवश्यक बहुमत द्वारा शेयरधारकों ने पारित कर दिया है। पोस्टल बैलेंट मतदान के परिणामों को स्टॉक एक्सचेंज के पास भेज दिया गया है। तथा 01.06.2013 को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

बीएलबी लिमिटेड के लिए
(सिचका जर्ना)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 03.06.2013

सार्वजनिक सूचना

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 17 के मामले में
तथा

बीएलबी लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 3ग तल, ईसीई हाउस, एनईसी-11, 28 ए, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 में है।

कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव के संघर्ष में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 17 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुपालन में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को स्थानांतरित करने के लिए 01.06.2013 को पोस्टल बैलेंट द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज II में परिवर्तन पुष्टि के लिए आवेदक कंपनी द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नोएडा, उत्तर प्रदेश के समक्ष आवेदन दाखिल किया जाएगा।

मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के इस प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा यदि किसी भी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपने हित को प्रकृतित तथा आपत्ति के कारणों, यदि कोई हो, का उल्लेख करते हुए सूचना के प्रकारान की तिथि से 21 दिनों के भीतर एक सशपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), सीडीआईएल भवन, ए-14, सेक्टर 1, मौतम बुधनगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 के पास जमा करें अथवा जमा कराएं अथवा पंजीकृत डाक से भेजें तथा साथ ही उसकी एक प्रति 3ग तल, ईसीई हाउस, एनईसी-11, 28 ए, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 में उसके पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उपलब्ध कराएं।

आवेदक लिए तथा उसकी ओर से
बीएलबी लिमिटेड
(सिचका जर्ना)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 03.06.2013

NOTICE

Notice is hereby given that M/S PGT Components Limited, (hereinafter "the Company") having its registered office at 31 Shubham Apartments IP Extension Patparganj New Delhi- 110092 is the absolute owner of the industrial property bearing number 83, Block A, Sector V, NOIDA, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P. (hereinafter "the Property"). The said property was acquired by the Company on 24-09-1999 vide TRANSFER DEED CUM SALE DEED registered at serial number 3762 and 3761, AD book number I Jild 1608 page nos.597 to 622 dated 29-09-1999 in the Office of the Sub-Registrar II, NOIDA, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P. The said Sale Deed along with other documents (hereinafter "the Original Documents") in respect of the said property have been lost and for which the Company has duly lodged a complaint Daily Diary No. 531 Dated 14/05/2013 before P.S. Sector- 9, Dwarka, New Delhi, reporting such loss of the Original Documents. Any person who has found the aforesaid original Documents is requested to intimate and submit the same to the Company at the below mentioned Address. Further, the General Public is hereby warned & cautioned that anybody found dealing and / or transacting on the basis of said lost Original Documents in respect of the said property shall personally be liable for the consequences thereof.

K.C. Ganjwal)
Administrator - CLB
For PGT Components Limil
Camp Office :
207, Vardham Sudershan Pls
Plot No. 4, Sector- 5, Dwarka
New Delhi - 110075

Place :- New Delhi
Dated :- 18-5-2013

JAGAN LAMPS LTD.

Regd. Office : Narela Piso Manihari Road Kundli Distt. Sonapat (Haryana)

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2013 (Rs. in Lacs)

| S. No. | PARTICULARS | Quarter Ended 31.03.2013 (Audited) | Quarter Ended 31.03.2012 (Audited) | Quarter Ended 31.12.2012 (Audited) | Previous Year Ended 31.03.2012 | Current Year Ended 31.03.2013 |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Net Sales / Income from operations | 480.15 | 537.27 | 487.26 | 1833.09 | 1790.52 |
| 2 | Other Income | 6.72 | 1.93 | 3.99 | 3.68 | 16.86 |
| 3 | TOTAL INCOME (1+2) | 486.87 | 539.20 | 491.25 | 1836.77 | 1807.38 |
| 4 | Expenditure :- | | | | | |
| | a) Change in Inventory of Finished | | | | | |